

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली - प्रार्थी

बनाम

- 1 श्यामलाल पुत्र गंगाधर जाति सुनार निवासी मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली (फौत)
 - 1/1 लक्ष्मीनारायण
 - 1/2 शिवनारायण
 - 1/3 सत्यप्रकाश उर्फ सत्यनारायण
 - 1/4 विष्णु
 - 1/5 जयप्रकाश
- 2 विशाल पुत्र मनोहर जाति मीना निवासी बड़ापुरा, तहसील मासलपुर
- 3 बाबू पुत्र किशोरी जाति मीना निवासी बड़ापुरा, तहसील मासलपुर
- 4 रामजीलाल पुत्र करमोली जाति कोली निवासी बड़ापुरा, तहसील मासलपुर जिला करौली (फौत)
 - 4/1 सुआबाई पत्नि रामजीलाल कोली निवासी बड़ापुरा
 - 4/2 कैलाश
 - 4/3 महाराज सिंह पिसरान रामजीलाल जाति कोली निवासी बड़ापुरा
 - 4/4 रामवीर
 - 4/5 बहादुर
 - 4/6 शीला पुत्री रामजीलाल पत्नि केदार जाति कोली निवासी बरौली
 - 4/7 शारदा पुत्री रामजीलाल पत्नि मुकेश } तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर

- अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक-02.03.2021

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर ने अप्रार्थी के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 1957/3 रकबा 0-07 बीघा ग्राम भावली तहसील मासलपुर का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 1957 रकबा 3-03 बीघा ग्राम भावली सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. तलाई दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु जमाबंदी संवत् 2027-30 में श्री श्यामलाल पुत्र गंगाधर जाति सुनार निवासी मासलपुर के नाम जरिये नियमन नामांतरकरण संख्या 264 से दर्ज कर दिया गया। तत्पश्चात् संशोधन से विशाल पुत्र मनोहर जाति मीना निवासी बड़ापुरा का नाम जोड़ा गया। इसके उपरांत विशाल मीना द्वारा बाबू पुत्र किशोरी जाति मीना को एवं श्यामलाल द्वारा रामजीलाल पुत्र करमोली जाति कोली को बेचान से जरिये नामांतरकरण संख्या 1355 बाबू पुत्र किशोरी जाति मीना व रामजीलाल पुत्र करमोली जाति कोली निवासीयान बड़ापुरा हिस्सा बराबर दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 तक में बाबू पुत्र किशोरी मीना हिस्सा 1/2 व रामजीलाल पुत्र करमोली जाति कोली हिस्सा 1/2 निवासीयान बड़ापुरा दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 1957/3 रकबा 0-07 बीघा बाके ग्राम भावली को वापस राजकीय भूमि गै.मु. तलाई दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्बत् 2015, 2034-37, 2047-50, 2071-74, 2074-77, नामांतरकरण संख्या 264/29.05.70, 690/29.10.77, 1294/21.05.92, 1355 की प्रमाणित प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार मासलपुर के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थी की गई।

अप्रार्थी संख्या 3 ने जवाब पेश करते हुए निवेदन किया है कि बाके ग्राम बड़ापुरा तहसील मासलपुर में आराजी खसरा नं. 1957/3 रकबा 7 विस्वा का रेफरेन्स प्रार्थी तहसीलदार मासलपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो कतई गलत व गैरकानूनी है। प्रार्थी का लम्बे समय से खसरा नंबर 1957/3 रकबा 7 विस्वा पर कब्जा चला आ रहा है। मौके पर कोई तलाई नहीं है जिसका राज्य सरकार द्वारा प्रार्थी के हक में नियमानुसार एलॉटमेंट खातेदारी दर्ज हो चुकी है जिसकी प्रार्थी के नाम से गिरदावरी हो रही है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार मासलपुर द्वारा पेश किया गया रेफरेन्स गैरकानूनी है व न्यायोचित नहीं है। अंत में रेफरेन्स खारिज फरमाने का निवेदन किया है।


शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये और ना ही उनके द्वारा कोई जवाब पेश किया गया।

वक्त बहस वकील अप्रार्थी संख्या 3 उपस्थित नहीं आये। बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गहनतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक विला लगानी आराजी खसरा नंबर 1957 रकबा 3-03 बीघा गै.मु. तलाई दर्ज रिकॉर्ड है। नामांतरकरण संख्या 264 द्वारा श्री श्यामलाल पुत्र गंगाधर जाति सुनार निवासी मासलपुर के नाम जरिये नियमन दर्ज की गई है। तत्पश्चात् संशोधन से विशाल पुत्र मनोहर जाति मीना निवासी बड़ापुरा का नाम जोड़ा गया। इसके उपरांत विशाल मीना द्वारा बाबू पुत्र किशोरी जाति मीना को एवं श्यामलाल द्वारा रामजीलाल पुत्र करमोली जाति कोली को बेचान से जरिये नामांतरकरण संख्या 1355 बाबू पुत्र किशोरी जाति मीना व रामजीलाल पुत्र करमोली जाति कोली निवासीयान बड़ापुरा हिस्सा बराबर दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्बत् 2074 से 2077 तक में बाबू पुत्र किशोरी मीना हिस्सा 1/2 व रामजीलाल पुत्र करमोली जाति कोली हिस्सा 1/2 निवासीयान बड़ापुरा के नाम अंकित है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन पूर्व में गै.मु. तलाई दर्ज थी जिसकी किस्म परिवर्तन के बाद भूमि का नियमन किया गया है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय से हम सहमत है।

अतः भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम भावली की आराजी खसरा नंबर 1957/3 रकबा 0-07 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै.मु. तलाई दर्ज करने की अनुशंसा की जाती है जिसकी स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 02.03.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।


(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली